

तुरंत रिलीज के लिए

## डेलोइट ने काउंसिल-अथॉराइज़्ड जांच पूरी की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 सितम्बर, 2021) – स्वतंत्र इन्वेस्टीगेटर और फोरेंसिक ऑडिटर डेलोइट (Deloitte) ने, 22 अप्रैल, 2021 को ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के द्वारा प्राप्त किए एडमिनिस्ट्रेटिव आचरण के संबंध में आरोपों की जांच पूरी कर ली है, इसमें निजी मुद्दे भी शामिल हैं।

इलज़ामों की समीक्षा करने के अलावा, सिटी काउंसिल ने उन कर्मचारियों और निवासियों को अवसर प्रदान करने के लिए एक गुमनाम पोर्टल खोलने का निर्देश दिया था, जो सिटी की प्रक्रिया या कर्मचारी वर्ग से संबंधित किसी भी मुद्दों की रिपोर्ट करना चाहते हों।

डेलोइट के द्वारा व्यापक जांच के बाद, इसके कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के द्वारा किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि या पक्षपात वाले व्यवहार नहीं मिले।

डेलोइट के द्वारा प्राप्त जनता के आरोपों में, रिपोर्ट मिली थी कि कार्पोरेट पॉलिसीज का पूरा पालन हो रहा है लेकिन डायरेक्टर-लेवल पर सिटी की पॉलिसीज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव गैर-अनुपालन की दो घटनाएं हुई हैं, मौजूदा काम के विस्तार के लिए पूरे किए लिमिटेड टेंडरिंग फार्म की कमी से संबंधित थी और दूसरी लिमिटेड टेंडरिंग फार्म की कमी से संबंधित थी। दस्तावेजों से संबंधित अनुपालन जोखिमों को कम करने के इरादे से, इस समय फाइनेंस प्रक्रिया के ऑटोमेट पहलुओं के लिए सिटी के प्रयास जारी हैं।

जांच के काउंसिल-निर्देशित छह क्षेत्रों में से प्रत्येक के संबंध में डेलोइट के निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है।

### 1. काम पर रखने की विधियां

डेलोइट ने काम पर रखने संबंधी गलत प्रक्रिया के इलज़ामों की जांच की, जो समीक्षा करने पर सिद्ध नहीं हुए या उनमें और जांच करने के लिए पूरे विवरणों की कमी थी।

### 2. खरीद संबंधी मुद्दे

डेलोइट के द्वारा जांच किए छह में से चार कॉन्ट्रैक्ट्स ने, परचेजिंग बाइ-लॉ (Purchasing By-law) और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का पालन किया। डेलोइट ने मौजूदा काम के विस्तार के लिए पूरे किए लिमिटेड टेंडरिंग फार्म की कमी और दूसरी, टेंडरिंग फार्म की कमी से संबंधित, सिटी की पॉलिसीज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं में गैर-अनुपालन की एक घटना की पहचान की है। ये दोनों डायरेक्टर-लेवल पर थीं।

### 3. पक्षपात संबंधी आरोप

पक्षपात संबंधी व्यवहार के आरोप सिद्ध नहीं हुए या उनमें और जांच करने के लिए पूरे विवरणों की कमी थी।

#### 4. कार्यस्थल में डराना-धमकाना और उत्पीड़न

जिस समय जांच का निष्कर्ष निकाला गया, उस समय सिटी की लागू पॉलिसीज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं मिला।

#### 5. जानकारी की बर्बादी

जानकारी की बर्बादी के आरोप सिद्ध नहीं हुए।

#### 6. स्टैंडर्ड पॉलिसी और प्रक्रिया संबंधी अनुपालन

गलत मुआवजे के आरोपों की समीक्षा करने पर, डेलोइट को पहले से बने संबंध की वजह से तरफदारी के कारण स्टैंडर्ड प्रक्रिया से परे काम करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। गलत कर्मचारी ट्रांसफर के आरोपों की समीक्षा करने पर, डेलोइट को कोई पॉलिसी उल्लंघन नहीं मिले।

बाद में ओनटैरियो के लोकपाल (Ontario Ombudsman) और पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) के द्वारा इस मुद्दे की पिछली समीक्षाओं के द्वारा, इन निष्कर्षों की हिमायत की गई है।

सिटी, स्टाफ और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं सहित, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती है, जिसने जांच में सहयोग दिया।

डेलोइट की रिपोर्ट, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जनता के लिए उपलब्ध है और रिपोर्ट की सामग्रियों के बारे में सवाल डेलोइट को भेजे जा सकते हैं।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)  
कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट  
स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन  
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

